



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1944 (श०)

(सं० पटना 145) पटना, वृहस्पतिवार, 31 मार्च 2022

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

21 मार्च 2022

सं०बि०व०से०(स्था०)-11/2021-973/प०व०ज०प०-वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या-5075 दिनांक-25.09.2003 द्वारा श्री मोख्तारूल हक, बि०व०से० तत्कालीन सहायक वन संरक्षक, वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची संप्रति सेवानिवृत्त के दिनांक-19.03.1999 से 11.05.1999 तक न्यायिक हिरासत में बितायी गयी अवधि को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा जी०आर० वाद संख्या-594/99 में दिनांक-11.09.2001 को पारित न्यायादेश में इन्हें आरोप से दोष मुक्त किये जाने के आलोक में उक्त निलंबन अवधि को समाप्त किया गया है तथा इन्हें उक्त अवधि का पूर्ण वेतन भुगतने करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार सेवा संहिता के नियम-99 के तहत न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन तभी देय होगा जबकि अधिकारी को आरोप से बरी कर दिया गया हो। वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या-5075 दिनांक-25.09.2003 द्वारा श्री मोख्तारूल हक, बि०व०से० तत्कालीन सहायक वन संरक्षक, वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची संप्रति सेवानिवृत्त को पूर्णतः दोष मुक्त पाये जाने के कारण उक्त निलंबन अवधि को समाप्त करते हुए उक्त निलंबन अवधि के लिए उन्हें पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त निलंबन अवधि (दिनांक-19.03.1999 से 11.05.1999) को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 145-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>